

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2011— श्रावण 28, शक 1933

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं